

नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़, एक करोड़ की दवाएं बरामद

Patna News - बुधवार को नौबतपुर में ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अधिकारियों ने पुलिस के सहयोग से थाना...

Hindi News | Local | Bihar | Patna

Naubtपुर News fake drug factory busted one crore drugs recovered

Jul 04, 2019, 08:40 AM IST



बुधवार को नौबतपुर में ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अधिकारियों ने पुलिस के सहयोग से थाना से आधे किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक दोमंजिले मकान में छापेमारी कर मल्टीनेशनल कंपनी कैडिला, जाइडस, मैक्लॉडस के नाम पर नकली दवाएं बनाने वाली फैक्ट्री का न केवल उद्भेदन किया बल्कि करीब एक करोड़ रुपए मूल्य की नकली दवाएं बरामद की हैं।

पुलिस को आता देख फैक्ट्री का संचालक मौके से फरार होने में सफल रहा। इस सिलसिले में कंपनी के एमडी मुस्तफा हुसैन ने स्थानीय थाने में कारोबारी मुकेश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। मुकेश दुल्हनबाजार थाना क्षेत्र के कोपा गांव निवासी कामेश्वर महतो का पुत्र है। कंपनी के एमडी मुस्तफा हुसैन ने बताया कि इन कंपनियों से नौबतपुर इलाके में नकली दवाएं बनाई जाने की शिकायत मिल रही थी। उसके बाद एक टीम बनाकर पहले उक्त स्थान की रेकी की गई। उन्हें बहुत दिनों से शिकायत मिल रही थी कि नौबतपुर में जाइडस, कैडिला, मैक्लोडस, डाबर इंडिया आदि मल्टीनेशनल कंपनी के नाम पर नकली दवाएं बनाने की फैक्ट्री है। यहां से उत्पादित दवाएं बिहार, झारखंड, यूपी, दिल्ली आदि राज्यों में सप्लाई की जाती है। उन्होंने स्थानीय पुलिस के सहयोग से मोतीपुर स्थित ब्रह्मदेव प्रसाद के मकान में छापेमारी की। छापेमारी में जाइडस कैडिला कंपनी की 45 सौ पीस स्किन लाइट क्रीम, स्किन लाइट क्रीम का 30 हजार पीस खाली ट्यूब, 35 हजार आउटर बॉक्स, 1 लाख पीस रैपर, एल्केम कंपनी की 7500 पीस तैयार पेनड्रम क्रीम, क्लेवम 625 एमजी का 27 सौ पीस बॉक्स और 6 हजार पीस डाबर लाल दंत मंजन तथा एक पीस ट्यूब मशीन बरामद की गई है।

थानाध्यक्ष केपी सिंह ने बताया कि ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के एमडी मुस्तफा हुसैन की शिकायत पर दुल्हनबाजार थाना क्षेत्र के कोपा निवासी कामेश्वर महतो के पुत्र मुकेश कुमार के विरुद्ध भादवि की धारा 420, 63 कॉपी राइट एक्ट एवं 103/104 ट्रेड मार्क एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पूछताछ के लिए मकान मालिक ब्रह्मदेव प्रसाद को हिरासत में लिया गया है।

नकली दवा फैक्ट्री में छापेमारी करती पुलिस। इनसेट में बरामद दवाएं।